



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 56] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 1982/माघ 28, 1903
No. 56] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 1982/MAGHA 28, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Food)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th February, 1982

G.S.R. 72(E)/Ess. Com./Sugarcane.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food), No. G.S.R. 660 (E)/Ess. Com./Sugarcane, dated the 15th December, 1981, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-section (i), dated the 15th December, 1981, at page 1888, in Foot Note 2, for "1877(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 2-12-1972" read "1847/Ess. Com./Sugarcane, dated 2-12-1966."

{No. 4-1/81-SPY(D II)}

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.

1335 GI/81

(161)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982

